



चमन लाल महाविद्यालय (स्वायत्त)

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALAYA

(अशासकीय सहायता प्राप्त)

(सम्बद्ध : श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल, टिहरी-गढ़वाल)
लण्डौरा (हरिद्वार) उत्तराखण्ड



पत्रांक सं. I.F./CLM/Exam/2024-25

दिनांक 04/09/24

कार्यालय आदेश

दिनांक-21.08.2024 में संपन्न हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में अंग्रेजी विभाग की दिनांक-06/09/24 में आयोजित बैठक में विभागीय अध्ययन मंडल को निम्नवत कार्यरूप प्रदान किया गया है, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने तथा स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों के रखरखाव संबंधी उपाय) विनियम, 2023 के अनुरूप गठित किया गया है।

(क) संबंधित विभाग प्रभारी - डॉ. दीपा अग्रवाल (अध्यक्ष)

(ख) विभाग के सभी संकाय सदस्य-1. डॉ. अपर्णा शर्मा (सदस्य)

(ग) अकादमिक परिषद द्वारा नामित किये जाने वाले मूल विश्वविद्यालय के बाहर से दो विषय विशेषज्ञ-

1. प्रो. मुदिता अग्निहोत्री, प्रोफेसर (गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड)

2. डॉ. लक्ष्मी आर चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर (ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, देहरादून, उत्तराखण्ड)

(घ) स्वायत्त महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुशासित छह के सूची में से कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ-(वि.वि. से नाम प्राप्त होने पर उल्लेख किया जायेगा)

(ङ) प्राचार्य द्वारा नामित उद्योग/कॉर्पोरेट क्षेत्र/संबंधित क्षेत्रों से एक प्रतिनिधि।- श्री नीरज कुश, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विधि विशेषज्ञ


(च) प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थी- शीबा प्रवीन


(छ) जब भी विशेष अध्ययन के पाठ्यक्रम तैयार किए जाने हों, स्वशासी महाविद्यालय के बाहर के विशेषज्ञ प्राचार्य द्वारा नामित किए जाएंगे।

कार्यकाल : मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

बैठकें : अध्ययन समिति की बैठकें हर छह महीनें में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी।

विशेष: संबंधित रिकॉर्ड विभाग प्रभारी द्वारा संरक्षित किया जाएगा।


विभाग प्रभारी


प्राचार्य

Minutes of Meeting (2024-25)

The First formal meeting of B.O.S was held on 06/09/24. Following members were presented to attend the meeting through online mode.

1. Dr. Deepa Agawal	Chairman	<u>Deepa</u>
2. Dr. Aparna Sharma	Member	ON-LINE
3. Dr. Meelita Agnihotri	Member	ON-LINE
4. Dr. Harini R. Chouhan	Member	ON-LINE
5. Shri Neeraj Kush	Member	ON-LINE
6. Sheeba Praveen	Member	<u>Sheeba</u>

Dr. Deepa Agawal, In-charge, department of English discussed the following agendas with all the respected members of B.O.S.

1. Agenda No-01

Resolution No-01

Syllabus Framework
&
Development

After careful consideration and deliberation the course given in SDSUV (Sri Devi Suman Uttarakhand Vishwanidyalaya) was accepted by the committee members for the session 2024-25.

2. Agenda No. 02

Question Paper

Deepa

Structure & Design

Question papers of
Sri Dev Suman Uttarakhand
Vishwanidyalaya was
reviewed and for the
session 2024-25, the
question paper format
of the affiliating University
was accepted as it is.

Compliance Status

Agenda No-01 - Approved
The aforementioned resolution
was Unanimously accepted by
the Committee members.

Agenda No-02 Approved
The aforementioned resolution was
Unanimously accepted by the
Committee members.

1st B.O.S. Meeting was successfully completed
with the vote of Thanks by the Convener
of the Board of Studies.

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Dr. Deepa Agarwal | Keene |
| 2. Dr. Aparna Sharma | ON-LINE |
| 3. Dr. Medita Agnihotri | Medita |
| 4. Dr. Harini R. Chauhan | ON-LINE |
| 5. Sri Neeraj Kush | ON-LINE |
| 6. Sheeba Praveen | Sheeba |

30/12

2nd Meeting of the Board of Studies
Department of English
Chaman Lal Mahavidyalaya
(Autonomous) Haudhara
Distt. Haridwar

Date: April 12, 2025

Time: 11:00 A.M.

The second formal meeting of B.O.S. was held on 12/04/2025. Following members were presented to attend the meeting.

- | | | |
|-------------------------|----------|---------------------|
| 1. Dr. Deepa Agawal | Chairman | Keene |
| 2. Dr. Aparna Sharma | Member | In Refresher Course |
| 3. Dr. Mudita Agnihotri | Member | Modi |
| 4. Dr. Harni R. Chauhan | Member | ON-LINE |
| 5. Shri Neeraj Kush | Member | ON-LINE |
| 6. Sheeba Prameen | Member | Sheeba |

Dr. Deepa Agawal, In-charge, Department of English revised the previous meeting agenda and discussed the following agenda with all the respected members of B.O.S.

Agenda No-01

Review of the previous meeting agenda

Resolutions No-01

Review and discussion of the existing syllabus & question paper pattern for the English department.

Agenda No-02

Consideration and determination
of the syllabus for the
session 2025-26

Resolution No-02

The Board reviewed
the existing syllabus
and found it suitable
for students. The syllabus
was accepted as it is
for the session 2025-26

Agenda No-03

Consideration and determination
of the Examination System
for the session 2025-26

Resolution No-03

The Board discussed
the examination
system and decided
to continue with
the previous system
for the session 2025-26.

Agenda No-04

Consideration of the syllabus
for value added courses
in the department

Resolution No-04

The Board considered
the value-added
course and decided
to review its
syllabus in the
next meeting.

Agenda No-05

Consideration and
decision on the

Resolution No-05

determination of syllabus and examination system under the NEP 2020 at the postgraduate level.

The Board decided to accept any changes or determination made by the affiliated university as per NEP 2020.

Agenda No-05

Resolution No-06

Other Subject:-
Consideration and decision on accepting any amendments made by SDSUV (affiliating uni.)

The Board decided that if any changes are made to the syllabus by the concerned university, they will be conducted accordingly.

Compliance status

Agenda No-01

Revised and Successfully Completed

Agenda No-02

Approved and Unanimously accepted by the BOS members.

Agenda No-03

All members of the general committee approved the decision.

Agenda No-04

The syllabus will be

finalized in the next meeting to ensure smooth implementation.

Agenda No-05

The Examination will be conducted based on the revised syllabus, if any change are made.

Agenda No-06

The proposal was also passed by the committee members.

2nd meeting was successfully completed with the vote of thanks by the convenor of the Board of studies.

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Dr. Deepa Agarwal | Same |
| 2. Dr. Aparna Sharma | In Refresher Course |
| 3. Dr. Mudita Agnihotri | <u>Mudita</u> |
| 4. Dr. Harvi R. Chauhan | ON-LINE |
| 5. Shri Neeraj Kush | ON-LINE |
| 6. Sheeba Praveen | <u>Shreya</u> |

32/10